

थाना जैतीपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता

05 किलो डोडा पोस्त व दो अदद तमंचे 315 बोर व दो अदद कारतूस जिन्दा

315 बोर सहित दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री निपुण अग्रवाल पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी तिलहर के कुशल निर्देशन एवं थानाध्यक्ष जैतीपुर के नेतृत्व में थाना जैतीपुर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 26.12.2020 को थाना जैतीपुर पुलिस टीम थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने व रोकथाम जर्म जुरायम, तलाश वाछित अपराधी व सदिग्ध व्यक्ति वस्तु वाहन चैकिंग के दौरान ग्राम तेजी गौटिया जाने वाले मार्ग से करीब 60 कदम नगरिया खुर्द सडक के बायीं तरफ से अभियुक्त गण 1. मनटूरी पुत्र रामपाल उर्फ जौधा निवासी ग्राम नगरिया खुर्द थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर 2. अजब सिंह उर्फ भौंगी पुत्र जवाहरलाल निवासी ग्राम नगरिया खुर्द थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 05 किलो डोडा पोस्त व दो अदद तमंचे 315 बोर व दो अदद कारतूस 315 बोर जिन्दा बरामद किये गये। अभियुक्त गण उपरोक्त के विरुद्ध थाना जैतीपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण :-

1. मनटूरी पुत्र रामपाल उर्फ जौधा निवासी ग्राम नगरिया खुर्द थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
2. अजब सिंह उर्फ भौंगी पुत्र जवाहरलाल निवासी ग्राम नगरिया खुर्द थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर

कार्यक्षेत्र:

अभियुक्त गण उपरोक्त बेहद शातिर किस्म का अपराधी है जो अवैध मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त आस पास के ग्रामीण इलाकों में करता है तथा इसी से अवैध धन अर्जित करता है इसका यही पेशा है।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

1. मु0अ0स0 381/2020 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर(अभियुक्त मनटूरी उपरोक्त)
2. मु0अ0स0 382/2020 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर(अभियुक्त मनटूरी उपरोक्त)
3. मु0अ0स0 383/2020 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर(अभियुक्त अजब सिंह उपरोक्त)

बरामदगी का विवरण:-

1. 05 किलो डोडा पोस्त
2. दो अदद तमंचे 315 बोर व दो अदद कारतूस 315 बोर जिन्दा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सहरावत थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर।
2. उ0नि0 श्री संजीव कुमार कुमार थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर।
3. का0 1814 अवधेश पाल थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर।
4. का0 1074 जगत सिंह थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर

